

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1983/माघ 13, 1904
No. 47] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 2, 1983/MAGHA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

MINISTRY OF ENERGY
(Department of Petroleum)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th January, 1983

S.O. 76 (E):— In the schedule appended to the notification of Government of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum)'s No. 12016/9/82 Prod. dated 20-4-1982 issued under section 3 (1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (ARUL) Act, 1962 (50 of 1962) published under S.O. No. 276(E), dated 20-4-1982 at pages 463 and 464 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) for village Boris, Taluka Alibag District Raigad.

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(1)]

Read				For					
S. No.	H. No.	Area			S. No.	H. No.	Area		
		Hec- tare	Are	Cen- tare			Hec- tare	Are	Cen- tare
9	1	0—06.3			9	1	0—6 3		

[No. 12016/9/82—Prod]
P. P. KHANNA, Jt. Secy.